

June 4, 2024

The General Manager  
**BSE Limited**  
Corporate Relationship Department  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street  
Mumbai- 400 001

The Manager  
**National Stock Exchange of India Limited**  
Listing Department  
Exchange Plaza  
5th Floor, Plot No. C-1, Block-G  
Bandra-Kurla Complex, Bandra(E)  
Mumbai-400 051

**BSE Scrip Code: 532281**

**NSE Scrip Code: HCLTECH**

**Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, enclosed please find the copies of the Newspapers advertisements published on June 4, 2024 in English and Hindi newspapers, namely Mint All Editions and Hindustan Hindi Delhi Edition respectively.

The copies of the aforesaid advertisements are also available on the website of the Company at [www.hcltech.com](http://www.hcltech.com).

This is for your information and records.


Thanking You,  
Yours truly,

**For HCL Technologies Limited**

**Manish Anand**  
**Company Secretary**  
Encl: a/a



   Supercharging Progress™ <b>HCL TECHNOLOGIES LIMITED</b>							
Corporate Identity Number: L74140DL1991PLC046369 Registered Office: 806, Siddharth, 96, Nehru Place, New Delhi-110019 Corporate Office: Plot No. 3A, Sector 126, NOIDA - 201304, U.P., India Website: www.hcltech.com; E-mail ID: investors@hcl.com Telephone: +91 11 26436336 Fax: +91 120 4680330							
<b>NOTICE</b>							
<p>NOTICE is hereby given pursuant to and in compliance with the provisions of Section 110 read with Section 108 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act"), Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI LODR Regulations"), read with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, the General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 9/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred as "MCA Circulars"), the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India on General Meetings, and other applicable laws, rules and regulations, as amended from time to time (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force), to the members of HCL Technologies Limited ("Company") through Postal Ballot notice dated May 31, 2024 ("Postal Ballot Notice"), for voting via remote e-voting process only ("remote e-voting"), to seek their approval for the following Special Businesses to be passed as the Special Resolutions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Appointment of Ms. Lee Fang Chew (DIN 02112309) as an Independent Director of the Company</b></li> <li><b>Approval of 'HCL Technologies Limited – Restricted Stock Unit Plan 2024' and Grant of Restricted Stock Units to the Eligible Employees of the Company thereunder.</b></li> <li><b>Grant of Restricted Stock Units to the Eligible Employees of Subsidiaries and/or Associate Companies of the Company under the 'HCL Technologies Limited – Restricted Stock Units Plan 2024.</b></li> <li><b>Authorization for secondary acquisition of equity shares of the Company by HCL Technologies Stock Options Trust for implementation of 'HCL Technologies Limited – Restricted Stock Unit Plan 2024' and providing financial assistance in this regard.</b></li> </ol> <p>In compliance with the MCA Circulars, the Company has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice, by electronic mode only, on <b>Monday, June 3, 2024</b> to those members of the Company whose names appeared in the Register of Members and the Register of Beneficial Owners as maintained by the Company and the Depositories respectively, as at close of business hours on <b>Wednesday, May 29, 2024</b> ('the Cut-off date') and whose e-mail addresses are registered with the Company and the Depositories. The Postal Ballot Notice is also available on the Company's website at <a href="http://www.hcltech.com">www.hcltech.com</a>, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited ('BSE') and National Stock Exchange of India Limited ('NSE') at <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> and <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a>, respectively, and on the website of National Securities Depository Limited ('NSDL') at <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a>.</p> <p>The members whose names appeared in the Register of Members and the Register of Beneficial Owners as on the Cut-off date are entitled to vote on the Resolutions as set forth in the Postal Ballot Notice. The voting rights of the members shall be reckoned in proportion to the paid-up equity shares held by them as on the Cut-off date. A person who is not a member as on the Cut-off date shall treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.</p> <p>In accordance with the MCA Circulars, the Company has provided the facility to vote on the Resolutions by remote e-voting and for this purpose, the Company has entered into an agreement with NSDL to facilitate the same. The detailed procedure and instructions for remote e-voting are enumerated in the Postal Ballot Notice.</p> <p>The members are requested to note that facility to exercise vote through remote e-voting will be available during the following period:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>Commencement of remote e-voting:</b></td> <td>From 09:00 a.m. (IST) on Tuesday, June 4, 2024</td> </tr> <tr> <td><b>End of remote e-voting:</b></td> <td>At 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, July 3, 2024</td> </tr> </table> <p>The facility for remote e-voting will be disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid voting period.</p> <p>M/s. Nityanand Singh &amp; Co, Company Secretaries (Membership No. FCS 2668; CP No. 2388) has been appointed as the Scrutinizer for conducting the postal ballot in a fair and transparent manner.</p> <p>The members who have not registered their e-mail address, in order to receive this Postal Ballot Notice, can follow the process as mentioned below:</p> <table border="1"> <tr> <td> <p><b>For shares held in Physical Form:</b> The members holding shares in physical form would need to send the Form ISR -1 duly signed by the registered members along with the requisite documents mentioned in the Form to our Register and Share Transfer Agent at: Link Intime India Pvt. Ltd, Unit: HCL Technologies Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai-400 083.</p> </td> </tr> <tr> <td> <p><b>For shares held in Dematerialized Form:</b> The members holding shares in electronic mode are requested to register/update their e-mail address, PAN and Bank Account details with the Depository Participant where their respective dematerialized accounts are maintained.</p> </td> </tr> </table> <p>The results of the Postal Ballot will be announced on or before 5:00 P.M (IST) on Friday, July 5, 2024. The results will be displayed on the notice board of the Company at its Registered Office and its Corporate Office. The results will also be uploaded on the website of the Company, website of NSDL and will also be intimated to NSE and BSE.</p> <p>For any queries relating to remote e-voting process, members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") for members and e-voting user manual for members that are available at the download section of <a href="http://www.evoting.nsdl.com">www.evoting.nsdl.com</a> or members can call on toll free no.: 022-48867000 or send a request at <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>. In case of any grievance connected with the remote e-voting, please contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager or Ms. Soni Singh, Asst. Manager, National Securities Depository Limited, Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai – 400013 at 022-24997000/ 49967000 or write to the designated e-mail ID: <a href="mailto:evoting@nsdl.co.in">evoting@nsdl.co.in</a>.</p>		<b>Commencement of remote e-voting:</b>	From 09:00 a.m. (IST) on Tuesday, June 4, 2024	<b>End of remote e-voting:</b>	At 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, July 3, 2024	<p><b>For shares held in Physical Form:</b> The members holding shares in physical form would need to send the Form ISR -1 duly signed by the registered members along with the requisite documents mentioned in the Form to our Register and Share Transfer Agent at: Link Intime India Pvt. Ltd, Unit: HCL Technologies Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai-400 083.</p>	<p><b>For shares held in Dematerialized Form:</b> The members holding shares in electronic mode are requested to register/update their e-mail address, PAN and Bank Account details with the Depository Participant where their respective dematerialized accounts are maintained.</p>
<b>Commencement of remote e-voting:</b>	From 09:00 a.m. (IST) on Tuesday, June 4, 2024						
<b>End of remote e-voting:</b>	At 05:00 p.m. (IST) on Wednesday, July 3, 2024						
<p><b>For shares held in Physical Form:</b> The members holding shares in physical form would need to send the Form ISR -1 duly signed by the registered members along with the requisite documents mentioned in the Form to our Register and Share Transfer Agent at: Link Intime India Pvt. Ltd, Unit: HCL Technologies Limited, C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (W), Mumbai-400 083.</p>							
<p><b>For shares held in Dematerialized Form:</b> The members holding shares in electronic mode are requested to register/update their e-mail address, PAN and Bank Account details with the Depository Participant where their respective dematerialized accounts are maintained.</p>							
For HCL Technologies Limited Sd/- <b>Manish Anand</b> Company Secretary Membership No. F-5022							
Date: June 3, 2024 Place: Noida (U.P.)							



**एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड**

कोर्पोरेट पहचान संख्या : L74140DL1991PLC046369  
पंजीकृत कार्यालय : ८०६, सिद्धार्थ, ६६, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-११००१६  
कोर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. ३ए, सेक्टर १२६, नोएडा-२०१ ३०४, उ.प्र., भारत  
वेबसाइट: [www.hcltech.com](http://www.hcltech.com), ई-मेल आईडी: [investors@hcl.com](mailto:investors@hcl.com)  
टेलीफोन: +९१ ११ २६४३६३३६ फैक्स: +९१ १२० ४६८०३३०

**सूचना**

एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("कम्पनी") के सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, अगर कोई हो, कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 एवं 22 ("नियम") और सभी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 ("सभी सूचीबद्धता विनियमों"), साथ में पठित कोर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, तथा बाद में नवीनतम 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 इसके संबंध में परिपत्र जारी किए गए हैं ("सामूहिकतौर पर एचसीएल परिपत्रों"), और सभी अन्य लागू कानूनों और विनियमों (उनके कोई केवैनिक परिवर्तनों) या उस समय लागू उसका पुनः अधिनियम) के अनुपालन और अनुसरण में एलएच द्वारा सूचना दी जाती है कि डाक मतपत्र सूचना दिनांकित मई 31, 2024 ("डाक मतपत्र सूचना") में निर्धारित किए गए निम्नांकित विशेष व्यवसाय को केवल रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया ("रिमोट ई-मतदान") से विशेष संकल्प के माध्यम से सदस्यों द्वारा सम्पादित करने का प्रस्ताव है :

- कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में सुश्री ली फेंग च्यू (DIN 02112309) की नियुक्ति
- "एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक सूचि प्लान 2024" की स्वीकृति और उसके तहत कंपनी के पात्र कर्मचारियों को प्रतिबंधित स्टॉक इकाइयों का अनुदान।
- "एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक सूचि प्लान 2024" के तहत कंपनी की सहायक कंपनियों और/या एसोसिएट कंपनियों के पात्र कर्मचारियों को प्रतिबंधित स्टॉक इकाइयों का अनुदान।
- कंपनी के इक्विटी शेयरों के द्वितीयक अधिग्रहण के लिए एचसीएल टेक्नोलॉजीज स्टॉक ऑफ़र ड्रस्ट द्वारा "एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड - रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक सूचि प्लान 2024" के कार्यान्वयन और इस संबंध में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्राधिकृति।

एचसीएल परिपत्रों के अनुसरण में, कम्पनी ने बुधवार, मई 29, 2024 ("कट-ऑफ तिथि") को व्यवसाय समय बंद होने तक कम्पनी के उन सदस्यों को जिन सदस्यों के नाम सदस्यों के रजिस्टर या कम्पनी/डिपॉजिटरी द्वारा अनुसूचित लाभार्थी स्वामियों की सूची में क्रमशः दर्ज हैं और जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरी के वहां पंजीकृत हैं उन्हें सोमवार, जून 3, 2024 को केवल इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्रेषित कर दी है। डाक मतपत्र सूचना कम्पनी की वेबसाइट [www.hcltech.com](http://www.hcltech.com) पर, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") की वेबसाइटों क्रमशः [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) तथा [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) पर, और नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की वेबसाइट [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों के नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर और लाभार्थी स्वामियों की सूची में दर्ज हैं, वे डाक मतपत्र सूचना में बताए गए प्रस्ताव पर मत डालने हेतु योग्य हैं। सदस्यों का महाधिकार कट-ऑफ तिथि को उनके द्वारा धारित प्रदात इक्विटी शेयरों के सम्मानपत्र में गिना जाएगा। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे डाक मतपत्र सूचना को केवल जानकारी के रूप में लें।

एचसीएल परिपत्रों के अनुसार, कम्पनी ने रिमोट ई-मतदान द्वारा संकल्पों पर मतदान करने की सुविधा प्रदान की है और इस उद्देश्य के लिए कम्पनी ने एनएसडीएल के साथ एक सम्झौता किया है। रिमोट ई-मतदान के लिए विस्तृत प्रक्रिया और अनुदेश डाक मतपत्र सूचना में वर्णित किए गए हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे ध्यान दें कि रिमोट ई-मतदान के माध्यम से मत डालने की सुविधा निम्नांकित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:

रिमोट ई-मतदान की शुरुआत	मंगलवार, जून 4, 2024 को पूर्वा, 09:00 बजे (भा.मा.सं.)
रिमोट ई-मतदान की समाप्ति	बुधवार, जुलाई 3, 2024 सायं 05:00 बजे (भा.मा.सं.)

उपरोक्त मतदान अवधि के समाप्त हो जाने पर एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-मतदान की सुविधा निर्योग्य कर दी जाएगी।

मेसर्स निरयानंद सिंह एंड कंपनी, कम्पनी सचिव (सदस्यता संख्या एचसीएल 2668, सीपी संख्या 2388) को निष्पक्ष और फारदर्शी तरीके से डाक मतपत्र आयोजित करने के लिए संबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है।

जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पते का पंजीकरण नहीं कराया है, वो इस डाक मतपत्र सूचना को प्राप्त करने के लिए नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं:

**भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए:**  
भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को पंजीकृत सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर -1 को फॉर्म में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ हमारे रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर एजेंट को निम्नांकित पते पर भेजना होगा: लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, युनिट: एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोली (पश्चिम), मुंबई-400 083।

**डिजिटल/रिजल्टाइज्ड फॉर्म में रखे गए शेयरों के लिए:**  
इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते, पैन और बैंक खाते के विवरण को डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत/अपडेट करें जहां उनके संबंधित डिजिटल/रिजल्टाइज्ड खाते रखे गए हैं।

डाक मतपत्र के परिणामों को शुक्रवार, जुलाई 5, 2024 सायं 5:00 बजे (भा. मा. स.) या उससे पहले घोषित किया जाएगा। उसी के साथ ही कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय तथा उसके मुख्य व्यवसायिक कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। परिणामों को कम्पनी की वेबसाइट, एनएसडीएल की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा और एनएसई और बीएसई को भी सूचित किया जाएगा।

ई-मतदान प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी भी पूछताछ हेतु, सदस्य के डाउनलोड अनुभाग [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) पर उपलब्ध श्रेयधारकों हेतु क्वीरेंटली आरकड क्वेश्चन ("एफएक्व") और श्रेयधारकों हेतु ई-वोटिंग यूजर मैन्युअल देखें अथवा टॉल फ्री नं. 022-48867000 पर कॉल करें या अपना निवेदन [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर भेजें। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतों को सम्बन्धित हेतु, कृपया सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक या सुश्री सोनी शिश, सहायक प्रबंधक, से नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चतुर्थ तल, कनाला मिल्स कम्प्लेक्स, सेनापति बापत मार्ग, लोअर फरेल, मुंबई-400013 से 022-24997000/49967000 पर संपर्क करें अथवा निविष्ट ई-मेल आईडी - [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in), पर लिखें।

कृते एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

दिनांक : जून 3, 2024  
स्थान : नोएडा (यूपी.)

हस्ता/-  
मनीष आनन्द  
कम्पनी सचिव  
सदस्यता संख्या एच-5022